

**HT MEDIA LIMITED**

Regd. Office : Hindustan Times House  
18-20, Kasturba Gandhi Marg  
New Delhi - 110001  
Tel.: 66561234 Fax : 66561270  
www.hindustantimes.com  
E-mail : corporatedept@hindustantimes.com  
CIN : L22121DL2002PLC117874

23<sup>rd</sup> July, 2024

**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
**Mumbai - 400 001**

**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C-1, Block G,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
**Mumbai - 400 051**

**Scrip Code: 532662**

**Trading Symbol: HTMEDIA**

**Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Ref: Transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund Authority**

Dear Sir(s),

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English) and "Hindustan" (Hindi) newspapers dated 23<sup>rd</sup> July, 2024, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **HT Media Limited**

**(Manhar Kapoor)**  
**Group General Counsel & Company Secretary**

**Encl.: As above**



India sends queries for Reliance & Disney deal

Reuters  
feedback@livemint.com  
NEW DELHI

India's antitrust body has asked Reliance Industries and Walt Disney around 100 questions linked to their \$8.5 billion India media assets merger, including details on sports rights as it heightens its scrutiny of the deal, two sources told *Reuters*.

Antitrust experts had warned that the Reliance and Disney deal, which was announced in February, could face intense scrutiny as it will create India's biggest entertainment player with 120 TV channels and two streaming services. The companies will also together own lucrative rights for cricket, India's most popular sport.

In a confidential submission to the Competition Commission of India (CCI) in May, the companies said their merger would not hurt the competition, and argued that cricket rights will expire in 2027 and 2028 and allow bidding by rivals, and advertisers can target cricket-watching consumers on many rival platforms including YouTube, *Reuters* reported in May.

The CCI has now sought more details via two sets of questions, including why YouTube, which mostly has free and user-generated content, should be treated in the same market as subscription streaming services like Netflix and Disney, two sources familiar with the matter said.

Reliance and Disney have responded to the CCI questions and argued YouTube too has its own licensed, paid content as well as a wide reach, said the sources, who declined to be named.

# Altimetrik to triple India IT team post TPG's investment

The US-based company targets \$1 billion revenue in three years after TPG took a 60% stake

Mansi Verma  
mansi.verma@livemint.com  
MUMBAI

US-based company Altimetrik plans to triple its engineering team in India as it targets \$1 billion in revenue over the next three years, fuelled by investment from global private equity firm TPG Capital.

"From an engineering talent perspective, we are open to go where the engineering capability is and India's got the greatest pool of engineers," Raj Sundaresan, chief executive officer of Altimetrik, told *Mint*. "It will be remiss if we don't take advantage of the talent pool here."

This comes at a time when tech hiring in India is slowing. Many IT firms and startups are downsizing or tightening their purse strings, offering low compensation and hikes.

"We're talking 3x from a revenue perspective in the next three years, that will be very proportionate, if not larger, to our employee growth," he added.

India currently has approximately 5,000 engineers working at Altimetrik, accounting for nearly 80% of the company's global tech workforce of about 6,200 employees.

Sundaresan also said that the company will continue growing its teams "proportionately" in other engineering centres in the US, Canada, Uruguay, Mexico, Poland, and Portugal, among others. "...a majority (of new talent) will come out of India centres because anything to do with digital business modernisation and AI, the talent is prime here. And we're doubling down and investing to ensure that we grow our talent," he added.

The update on Altimetrik's hiring plans follows the acquisition of a major



Raj Sundaresan, chief executive officer of Altimetrik, said that India's got the greatest pool of engineers.

ity stake of about 60% in the company by TPG Capital, a US-based private equity firm, valuing it at about \$1.5 billion.

Altimetrik's hiring mandate is sizable given the current hiring slowdown, said Anshuman Das, co-founder and CEO of Indian hiring firm, CareerNet.

"Areas like technical support, operations are people intensive functions. It is best to run these functions from India remotely for all locations across the world. Moreover, India also offers cutting-edge research and development (R&D) and product innovation at scale, which is the core of any company. These are some of the advantages which no other country can offer or replicate easily," he added.

Das believes that with the multilingual talent in India, it is extremely cost- and scale-advantageous for any company to build its maximum headcount

out of the country.

TPG's investment, through its Asian private equity platform, will accelerate Altimetrik's efforts towards clocking \$1 billion in revenue in the next three years, Sundaresan said.

Altimetrik last reported \$111 million in operating revenue in financial year 2022.

As the firm charts its roadmap to the milestone, it plans to continue growing further in the US, the country with its highest client base, along with adopting new plans to expand in other geographies.

And in addition to expanding its tech team, Altimetrik has more on the cards for India.

Founded in 2012 by Indian-American entrepreneur Raj Vattikuti, Altimetrik is a pure-play digital enablement company that provides business solutions to companies and helps them transform

into a digital business. Sundaresan, the current chief, joined the company, five years later, in 2017.

The TPG-backed firm partners with clients mainly in financial services, pharmaceuticals and auto manufacturing. It now plans to target companies in the insurance sector.

"We already have three or four clients in that vertical, but we're going to double down in that area because it's prime for digital business enablement. Modernization is also crucial since the majority of insurance clients are on legacy platforms, which hinder their ability to innovate quickly," said Sundaresan.

Altimetrik, which has a presence in 14 countries, anticipates a shift in its revenue mix from the US versus other regions from the current 75-25 to 60-40 over the next three years. This change is expected as the company intensifies its growth efforts in the UK, Europe and APAC regions.

For India, Altimetrik also plans to target the growing number of global capability centers or GCCs as a major client segment, along with its core focus areas in finance, pharma and auto manufacturing.

"We've identified a great opportunity within India with the GCCs. Many GCCs in India are doing significant work for clients headquartered elsewhere. We aim to target these centres by starting with support for the GCCs here, then establishing and building relationships with their headquarters," Sundaresan, who was on an India visit earlier this month, added. According to reports, the country currently hosts over 1,580 GCCs and a talent base of over 1.66 million.

The company also plans to pursue inorganic growth through mergers and acquisitions in growth verticals and geographies, including India.

## 'Tax benefits can push bank deposits'

Anshika Kayastha  
anshika.kayastha@livemint.com  
MUMBAI

The government needs to explore options such as tax benefits to encourage individuals to keep more money in bank deposits, said Ashwini Kumar Tewari, managing director of State Bank of India, adding to the chorus on India's worst deposit crunch in two decades.

"We have to think through various things, what are the options. Taxation benefits could be given... Some alignment could be done with investments linked to deposits," Tewari said at a BFSI summit organised by CareEdge Ratings on Monday.

"There could be talk about SLR, etc. Can (banks) get some dispensations there? Because

banks continue to fund almost 90% of economic activity and as long as that is the case, bank deposits are really important," he said.

SLR, or the statutory liquidity ratio, is the minimum percentage of deposits that a bank has to maintain as cash, gold or securities, which would have an impact on its lending rates.

Indian banks have been struggling to attract deposits even as customers have been borrowing heavily, leading to the highest credit-deposit ratio in the banking system in at least 20

**Banks are struggling to attract deposits, leading to highest credit-deposit ratio in the system in 20 years**

years.

Last week, Reserve Bank of India governor Shaktikanta Das warned that this could "potentially expose the system to structural liquidity issues".

For an extended version of this story, go to [livemint.com](#).

**JAIPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
(A Govt. of Rajasthan Undertaking), 2nd Floor, Admin Building, Metro Depot, Bhriugu Path, Mansarovar, Jaipur 302020, Telephone: 0141-2822752, E-mail: [edca@jaipurmetro.in](mailto:edca@jaipurmetro.in)  
No. F.1(A-689)/JMRC/DC/Admin/Mampower RFP/2023-24/10 Date: 22/07/2024

**NOTICE INVITING BID**  
JMRC invites bids from the eligible contractors for "RFP for Engaging (Hiring) Contractor for Providing office support services at JMRC Corporate Office and Other Sites Offices of JMRC". With estimated cost ₹ 5.72 Crore. Pre-bid Meeting scheduled at 11:30 Hrs on 26/07/2024 at above said office address. All interested bidders are invited to attend the meeting. Last date for submission & Opening of bids is 12/08/2024. Please visit JMRC website <http://transport.rajjasthan.gov.in/jmrc>, SPP Portal <http://sppp.rajjasthan.gov.in> and <http://eproc.rajjasthan.gov.in> for all Clarification/corrigendum. (UBN: JMR2425SL0800049)  
Raj Samwad/C/24/2621 Chairman & Managing Director, JMRC

**WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED**  
(A Government of West Bengal Enterprise)  
Registered Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091  
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: [www.wbsetcl.in](http://www.wbsetcl.in)  
NIT No.: CE(CTD)/WBSETCL/PROCUREMENT/24-25/1 Date: 23.07.2024

E-Tender is invited for procurement of Numerical Relay test kit. Bid documents can be downloaded from 23.07.2024, 02:00 P.M. and bids shall be submitted online up to 02:00 P.M., 21.08.2024. Visit the following websites: [www.wbtenders.gov.in](http://www.wbtenders.gov.in), <https://etender.wb.nic.in>, [www.wbsetcl.in](http://www.wbsetcl.in) for details. ICA-T11996(3)/2024


**Reserve Bank of India**  
New Delhi

**Notice Inviting E-Tender**  
Tender No. RBI/New Delhi/Estate/3/24-25/ET/236  
Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Intelligent Analog Addressable Fire Alarm system for the Bank's Main Office Building and Annex Building at RBI New Delhi  
E-tender is invited for "Design, Supply, Installation, Testing and commissioning of Intelligent Analog Addressable Fire Alarm system for the Bank's Main Office Building and Annex Building at RBI New Delhi." For full details of the tender, please visit our website [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) or [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) or contact us at Estate Department, Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi - 110001. The last date of submission of e-tender form is August 28, 2024 upto 14.00 Hours.  
**NOTE** – Corrigendum, if any, issued on above advertisement, will be published only on the Bank's website.  
Regional Director  
New Delhi

**HT Media Limited**  
CIN: L22210DL2002PLC117874  
Registered Office: Hindustan Times House, 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001  
Ph.: +91-11-6656123  
E-mail: [investor@hindustantimes.com](mailto:investor@hindustantimes.com); website: [www.htmedia.in](http://www.htmedia.in)

**NOTICE**  
(for the attention of Equity Shareholders of the Company)  
Sub: Transfer of unpaid/unclaimed dividend & Equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)  
In terms of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") if dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven (7) years or more, the same shall be liable to be transferred by the Company to the IEPF account. Further, in terms of Section 124(6) of the Act and IEPF rules, the Company is also required to transfer the shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven (7) consecutive years or more, to the IEPF Account.  
The Company has communicated individually to the concerned shareholders, on their latest available address, whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the IEPF Rules, for taking appropriate action(s). The list of such shareholders, whose shares are liable for transfer to the IEPF, is placed on the website of the Company i.e. <https://www.htmedia.in/> under 'Investor relations' section.  
The concerned shareholders holding shares in physical form, and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for dematerialization, followed by transfer of shares to IEPF Authority as per the IEPF Rules. Upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will automatically stand cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in demat form, the Company will inform the respective Depository by way of corporate action for transfer of shares to IEPF Authority. The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website viz. <https://www.htmedia.in/> will be considered as, and shall be deemed to be, adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.  
The concerned shareholders are requested/advised to claim the unpaid/unclaimed dividend amount(s) on or before **October 26, 2024**, failing which the Company shall proceed to transfer the liable dividend and Equity shares to IEPF Authority without any further notice. The concerned shareholders may still claim the dividend and Equity shares from IEPF Authority by submitting an online application in E-Form IEPF-5, available on the website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) and following the procedure laid down under the Act and the IEPF Rules.  
Kindly note that unpaid/unclaimed dividend for financial years upto 2015-2016 and shares in respect thereof, have already been transferred to IEPF, and the same can be claimed back from IEPF Authority, following the procedure laid down under the said IEPF Rules.  
For any queries in respect of the above, shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent at KFin Technologies Ltd., Unit: **HT Media Limited**, Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500032. Toll Free No.: 1800-309-4001; Email: [einward.ris@kfinetech.com](mailto:einward.ris@kfinetech.com); Website: [www.kfinetech.com](http://www.kfinetech.com).


**For HT Media Limited**  
(Manhar Kapoor)  
Group General Counsel and Company Secretary  
Date: 22 July, 2024  
Place: New Delhi

**NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY**  
Administrative Building, Sector-6, Noida G.B. Nagar, (U.P.)  
Website : [www.noidaauthorityonline.com](http://www.noidaauthorityonline.com)


**E-TENDER NOTICE**  
E-Tenders are invited from eligible contractors/firms for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on NOIDA Authority's official website: [www.noidaauthorityonline.in](http://www.noidaauthorityonline.in) & <https://etender.up.nic.in>. Please ensure to see these websites for any changes/amendments & corrigendum etc.  
**A) Fresh-Tender Work:**

Sr. No.	Job No.	Name of the Work	Tender Amount (Rs. Lacs)
1.	09/DGM/SM(WC-1)/2024-25	M/o Road (C/o Internal C.C. road and drain and culvert in S, V, Y & Z-Block in Sector-12), Noida.	218.48
2.	09/DGM/SM(WC-8)/ET/2024-25	M/o Village (P/L CC Pavement and R/o drain in front of Pillar No. 110 Main Gate in Village Salarpur), Noida.	144.89
3.	04/DGM/SM(WC-10)/ET/2024-25	C/o Drain on 45.00 mtr wide road from Metro line toward Pusta Facility Plot side in Sector-147), Noida.	191.25
4.	06/DGM/SM(WC-10)/ET/2024-25	C/o RCC Drain and repairing of drain including providing and placing of drain cover from Golf Course towards Dairy Gujaron ki on 45.00 mtr wide road between Sector-155 & 151A, Noida.	147.42
5.	01/DGM/SM(WC-6)/2024-25	Resurfacing of road (P/L DBM and BC work on 45.00 mtr. wide road Vedvan Park T-Point to Elite Society Sector-78), Noida.	192.55
6.	04/DGM/SM(WC-6)/2024-25	M/o Road (Remodelling of footpath between Sector-73 and Sector-122), Noida.	137.39
7.	05/DGM/SM(WC-6)/2024-25	Strengthening of road (P/L BC layer on Internal road Sector-119), Noida.	195.03

The above tenders can be uploaded by dated **06.08.2024** up to **5.00 PM**. Pre-qualification shall be opened/downloaded on dated **07.08.2024** at **11.00 AM**.  
Dy. General Manager (Civil) NOIDA  
**CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA**

**INDIA RISING BUDGET 2024** | **mint**  
Think Ahead. Think Growth.

## Seeking clarity on the upcoming Union Budget?

**Find all the answers on mint**

Key Announcements

Personal Finance

Personalised Budget Summary


Investment Partner


Real-time Analysis


Market Impact


Expert Opinion


Associate Sponsor


**StockGro**  
Making Investments Social


**NUCLEUS OFFICE PARKS**

**एनएचपीसी NHPC**

**Scan to explore now**

 Mint App

 [www.livemint.com](http://www.livemint.com)

 Mint Newspaper



विदेश 30 S

1H10624